



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दो अपराधियों पर रा.सु.का(N.S.A) की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में थाना पिसावां पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले दो अभियुक्तों 1.कौशल पुत्र दाताराम नि0 बल्लिया थाना रौजा जनपद शाहजंहापुर 2.प्रताप पुत्र बुद्धपाल नि0 अहमदपुर नेवाजपुर थाना रोजा जनपद शाहजंहापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

थाना पिसावां पुलिस द्वारा दिनांक 07.10.2020 को अभियुक्तगण 1.कौशल पुत्र दाताराम नि0 बल्लिया थाना रौजा जनपद शाहजंहापुर 2.प्रताप पुत्र बुद्धपाल नि0 अहमदपुर नेवाजपुर थाना रोजा जनपद शाहजंहापुर को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 05.10.2020 को हुई जनपद बरेली की रहने वाली महिला को दो युवको द्वारा लाकर कपड़ों में आग लगाकर मारने का प्रयास किया गया था। इसके सम्बन्ध में थाना पिसावां पर मु0अ0सं0 338/2020 धारा 326/366/302/34 भा.द.वि. पंजीकृत कर अभियुक्तगण को जेल भेजा गया था। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो में विश्वास कायम हो सका। पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 06.12.2020 को अन्तर्गत धारा 326/366/302/34 भा.द.वि. में आरोप पत्र 375/20 में माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण वर्तमान में जिला कारागार सीतापुर में बंद है। अभियुक्तगण जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत थे। N.S.A. अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्तगण को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरुद्ध किये जाने हेतु निरुद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।

क्षेत्र की लोक व्यवस्था के अनुरक्षण एवम् अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तगण 1.कौशल पुत्र दाताराम नि0 बल्लिया थाना रौजा जनपद शाहजंहापुर 2.प्रताप पुत्र बुद्धपाल नि0 अहमदपुर नेवाजपुर थाना रोजा जनपद शाहजंहापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही से जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. कौशल पुत्र दाताराम नि0 बल्लिया थाना रौजा जनपद शाहजंहापुर
2. प्रताप पुत्र बुद्धपाल नि0 अहमदपुर नेवाजपुर थाना रौजा जनपद शाहजंहापुर